



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 455 राँची, शुक्रवार

5 आषाढ, 1937 (श०)

26 जून, 2015 (ई०)

jkt; fuokpu vk; kx] >kj [k.M

आदेश

10 जून, 2015

संख्या: 03नि०-39/2012 रा०नि०आ० 1473 - यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2010 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 क, सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्य्यों का कोई भी लेखा दाखिल करने / विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों ने समयक सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिया कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गए अभ्यावेदनों पर, (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, खूँटी के प्रतिवेदन / अनुपूरक प्रतिवेदन एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 कि धारा 10क सहपठित, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों / स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित किया जाता है।

Øekol	ftyk	fuokpu {k-	ule ,oairk	dkj.k
1	2	3	4	5
1	[kvh	XIX [kvh@djkzn0&02	cgknj eqMk] xte&/kueqth i pk; r&dnpe] i [k.M&djkz ftyk&[kvh	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
2		XIX [kvh@djkzn0&02	jkentykj fl g] xte&xepMh i pk; r&fyemk] i [k.M&djkz	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
3		XIX [kvh@jfu; k&05	i koy l jhu] xte csydhnj]k i pk; r&[kV[kjk]	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
4		XIX [kvh@jfu; k&05	i ksyw Mka] xte&fujl hax djkdys] i pk; r&[kV[kjk]	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
5		XIX [kvh@[kvh &06	xju eqMk] xte&xkskMhg] fcpkxvw i pk; r&ykUnw	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA
6		XIX [kvh@[kvh &06	tku dPni] xte&Vdj]k gkrqkeh i pk; r&ejgh	fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA

7	XIX [kvh@kvh &06	jktsk eqMk] xte&jok ¼cjgM i pk; r& fcjgM	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
8	XIX [kvh@kvh &06	fo t; fl g eqMk] xte&fryek] i pk; r&fryek]	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
9	XIX [kvh@ejg&07	fl yollrh cknjk] xte&xkMkVkyh] ejgM i [k.M&ejgM	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA
10	XIX [kvh@vMdh&08	exnyh ga] xte&t kj dk] el hgMhg] i pk; r&l kd kd/h	fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA

jkT; fuokpu vk; Qr ds vkns k I }

(g0@&) अस्पष्ट

I fpo

jkT; fuokpu vk; kx]

>kj [k.M] jkdh A
